

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों के कब्जे से 55 लीटर कच्ची व 115 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गयी।

(i). उ0नि0 श्री दयालदास थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा टिटिहरा मोड के पास से अभियुक्त जगदीश मिश्रा पुत्र श्यामसुन्दर निवासी बीरा मजरा बगलई थाना भरतकूप को 115 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा मछली मण्डी के पास से अभियुक्त गणेश प्रसाद पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी मछली मण्डी भैरोपागा थाना कोतवाली कर्वी को 35 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री सुधीर सिंह चौकी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा कपसेठी के पास से अभियुक्त लल्लू निषाद पुत्र चुनकवा निवासी मुन्सी का पुरवा थाना बदौसा जनपद बांदा को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). जनपद चित्रकूट पीआरवी 4425 थाना मऊ अंतर्गत दिनांक 08.11.2020 को समय 18:47 बजे इवेंट संख्या 10637 द्वारा घटनास्थल मऊ थाना मऊ से कॉलर द्वारा सूचना दी गयी कि चार पहिया गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है 1 घायल है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक चोर पहिया गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार कर भाग गया है, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के द्वारा chc अस्पताल मऊ में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में थाना पुलिस को भी अवगत कराया गया है।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर -आरक्षी विनोद कुमार

पायलट - hg राजुल प्रसाद

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती सीमा पाण्डेय पत्नी श्री रामसुहावन पाण्डेय निवासी सिकरी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति रामसुहावन द्वारा खर्चा नहीं जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त मुख्य आरक्षी अरुण कुमार द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया । दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर सभी को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं प्रताड़ित न करने की बात कही । इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 09.11.2020 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी ।

(4). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 09.11.2020 को यातायात निरीक्षक श्री घनश्याम पाण्डेय एवं यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु मंदाकिनी पुल, ट्राफिक चौराहा कर्वी, बेड़ी पुलिया, संतथोमस स्कूल के पास, पर्यटक तिराबा सीतापुर में वाहनों की चेकिंग की गयी । चेकिंग के दौरान तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट. ओवर स्पीड एवं बिना सीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने

एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 84 वाहनों से 81500 रुपये पेंडिंग ई-चालान किया गया एवं कोविड-19 गइडलाइन का पालन न करने वाले एवम मास्क न लगाने वाले 10 व्यक्तियों से 1500 रुपये जुर्माना वसूला गया। इस दौरान वाहन चालकों को पम्पलेट्स के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा ग्राम गुरौला में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा ग्राम ओवरी में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम चिल्लीराकस में, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम सभापुर बराछी, कस्बा भरतकूप में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कोनिया, परानु बाबा में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा भैरोपागा में, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम कर्का पडरिया में, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में भ्रमण कर ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, प्रमुख चौराहों, में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया। विभिन्न थाना स्तर की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा आवारा रूप से घूम रहे संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की गयी तथा हिदायत दी गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(6). आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली एवं भाई-दूज को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी की अध्यक्षता में थाना पहाड़ी परिसर में थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी द्वारा उपस्थित लोगों से त्यौहार सम्बन्धी समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर समाधान हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये। उपस्थित सभी लोगों से आने वाले त्यौहारों को सद्भावपूर्वक भाई-चारे के साथ एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की।